



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

15 जून 2007



खंड 22

संख्या 24

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2006	2007		घट-बढ़	
	9 जून	1 जून	8 जून #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	4,48,458	5,11,736	5,16,608	4,872	68,150
संचलन में नोट	4,48,441	5,11,723	5,16,587	4,864	68,145
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	17	14	21	7	4
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	101	101	101	—	—
बाजार स्थिरीकरण योजना	30,610	81,317	86,306	4,990	55,697
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,23,755	2,14,425	1,97,292	-17,133	73,537
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,886	2,581	2,527	-53	641
अन्य बैंक	6,152	9,181	9,245	64	3,093
अन्य	11,918	12,221	21,096	8,875	9,178
अन्य देयताएं	1,80,694	1,25,462	1,33,377	7,914	-47,317
कुल देयताएं / आस्तियां	8,03,614	9,57,065	9,66,593	9,528	1,62,979
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	7,12,159	8,14,862	8,28,522	13,660	1,16,363
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	32,549	28,147	28,147	—	-4,402
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	41,415	76,477	76,455	-22	35,040
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	26,707	21,579	-5,128	21,579
राज्य सरकारें	—	58	903	845	903
नाबार्ड	1,336	—	—	—	-1,336
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2	184	101	-83	99
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	22	21	17	-4	-5
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	87	86	86	—	-1
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	3,973	3,973	3,973	—	—
अन्य आस्तियां	12,072	6,550	6,811	260	-5,261

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	8 जून 2007 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2007 की समाप्ति पर		दिसंबर 2006 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	8,58,551	209,547	13,674	1,174	-9,671	10,368	74,569	32,296	1,10,263	46,671
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,28,522	202,177	13,660	1,175 *	-8,075	10,253	75,784	31,990	1,16,363	47,090
(ख) स्वर्ण	28,147	6,911	—	—	-1,426	127	-677	394	-4,402	-99
(ग) विशेष आहरण अधिकार	6	1	—	—	-2	-1	2	—	4	1
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	1,876	458	14	-1	-168	-11	-540	-88	-1,702	-321

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	25 मई 2007 को बकाया #	परखाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2006-2007	2007-2008	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	36,028	-2,182	-5,640	-4,055	-6,072	4,590
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	28,818	-521	525	-6,313	2,894	-904
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	16,751	1,036	-297	6,673	-3,018	8,158
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां @	26,08,665	4,671	27,960	14,406	3,58,140	4,71,656
		(0.2)	(1.3)	(0.6)	(20.1)	(22.1)
मांग	3,69,043	701	-33,003	-54,083	78,085	37,406
मीयादी @	22,39,622	3,969	60,963	68,489	2,80,055	4,34,250
उधार ⁽³⁾	82,619	-4,658	-5,185	-3,532	6,951	4,659
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,24,285	3,144	2,988	-21,498	43,012	32,517
रिजर्व बैंक से उधार	3,139	2,768	-1,486	-3,106	-772	3,137
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,01,559	15,668	-5,232	5,986	35,284	66,685
पास में नकदी	15,323	546	-730	-28	2,329	3,007
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,86,236	15,122	-4,503	6,014	32,956	63,678
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	25,918	-865	-3,365	-2,245	3,619	2,821
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	13,897	-555	-290	-6,975	-6,877	567
बैंकों को अग्रिम	4,321	-670	-853	-2,159	-5,539	982
अन्य आस्तियां	22,924	749	328	1,594	6,157	12,476
निवेश⁽⁵⁾	8,17,057	4,386	28,381	24,897	-2,995	71,221
		(0.5)	(4.0)	(3.1)	(-0.4)	(9.5)
सरकारी प्रतिभूतियों में	7,96,292	4,599	27,655	25,232	-826	67,895
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	20,765	-213	726	-335	-2,169	3,326
बैंक ऋण	18,86,520	-4,541	-13,644	-36,672	3,52,360	3,93,087
		(-0.2)	(-0.9)	(-1.9)	(30.9)	(26.3)
खाद्य ऋण	44,864	-2,541	-1,628	-1,657	-6,664	5,801
खाद्येतर ऋण	18,41,656	-2,001	-12,016	-35,015	3,59,024	3,87,286
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	18,09,490	-3,485	-8,667	-28,972	3,38,778	3,87,702
देशी बिल - खरीदे गए	11,591	-539	-2,534	-1,953	2,700	1,212
भुनाए गए ⁽⁶⁾	30,520	591	-2,050	-815	4,656	1,754
विदेशी बिल - खरीदे गए	13,498	-371	-1,084	-2,279	1,819	1,507
भुनाए गए	21,420	-737	691	-2,653	4,407	912
नकद-जमा अनुपात	7.73					
निवेश-जमा अनुपात	31.32					
ऋण-जमा अनुपात	72.32					

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुरूपी मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिज्म बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनः भुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2006	2007					
	2 जून	27 अप्रैल	4 मई	11 मई	18 मई	25 मई	1 जून
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	6.25	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	10.75-11.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25
जमा दर ⁽⁴⁾	6.25-7.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	4.00/5.65	4.00/15.00	5.25/14.00	1.00/7.75	3.00/9.50	1.95/8.25	0.10/8.10
- दिये गए उधार	4.00/5.65	4.00/15.00	5.25/14.00	1.00/7.75	3.00/9.50	1.95/8.25	0.10/8.10

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

(करोड रुपए)

4. आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुछ भिन्न हो सकता है।

1. स्वतंत्रता दिवस पर प्रभात 1 मान 1995 से साप्ताहिक
2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2006		2007	
	31 मार्च #	25 मई #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	32,96,919	33,25,247	-7,926	-0.2	49,734	1.8	28,328	0.9	4,32,183	18.4	5,45,966	19.6
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	4.84.171	5.04.112	-6.499	-1.3	23.043	5.6	19,941	4.1	59,323	15.7	67,950	15.6
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	4.68.216	4.12.481	307	0.1	-33,937	-8.4	-55,736	-11.9	82,938	28.6	40.030	10.7
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	23.37.045	24.03.268	271	—	61.086	3.2	66.223	2.8	2.87.833	17.2	4,39.013	22.4
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	7.487	5.386	-2.005	-27.1	-457	-6.7	-2,101	-28.1	2.089	48.3	-1,027	-16.0
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	8.32.867	8.58.753	2,509	0.3	27.727	3.6	25,887	3.1	25,102	3.3	64.431	8.1
(क) रिजर्व बैंक	4.362	6.304	-44		-403		1,942		23,801		-1,430	
(ख) अन्य बैंक	8.28.505	8.52.450	2,553	0.3	28.130	3.7	23,945	2.9	1,302	0.2	65.861	8.4
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	21.23.290	20.84.179	-7,071	-0.3	-13,066	-0.8	-39,111	-1.8	3,59,454	27.2	4,04,241	24.1
(क) रिजर्व बैंक	1.537	1.386	—	—	—	—	-151	-9.8	-3	-0.2	-1	-0.1
(ख) अन्य बैंक	21.21.753	20.82.793	-7,071	-0.3	-13,066	-0.8	-38,960	-1.8	3,59,456	27.3	4,04,242	24.1
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	9.30.319	8.94.800	-10,702	-1.2	68.341	9.4	-35,519	-3.8	1,55.754	24.4	1,00.266	12.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	8.229	8.229	—	—	-979	-11.2	—	—	280	3.7	454	5.8
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुद्देतर देयताएं उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयताएं	5.97.786	5.20.715	-7,339	-1.4	32.289	6.9	-77,071	-12.9	1,08,407	27.9	23,426	4.7
	1.78.967	1.25.200	-15,235	-10.8	46.956	37.9	-53,767	-30.0	59.444	53.3	-45,754	-26.8

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसम्बर 2005 से बँडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2007 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के पहले की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2006		2007	
	31 मार्च #	8 जून #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	7,08,950	7,48,741	-3,383	-0.4	21,356	3.7	39,791	5.6	89,058	17.6	1,54,328	26.0
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	5,04,167	5,24,816	4,864	0.9	25,541	5.9	20,649	4.1	63,024	16.0	68,599	15.0
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	1,97,295	2,09,064	-17,123	-7.6	-3,718	-2.7	11,769	6.0	24,014	22.3	77,271	58.6
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	7,487	14,862	8,875	148.3	-467	-6.8	7,374	98.5	2,019	46.0	8,458	132.1
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केन्द्र को	4,362	12,657	-9,308		2,608		8,296		11,514		1,913	
	4,118	11,795	-10,153		5,626		7,678		11,514		1,010	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	9,173	2,727	-87	-3.1	-3,213	-44.7	-6,446	-70.3	-3,954	-49.9	-1,243	-31.3
	7,635	1,341	-87	-6.1	-3,213	-55.4	-6,295	-82.4	-3,952	-60.5	-1,242	-48.1
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,66,153	8,56,651	13,660	1.6	71,707	10.7	-9,502	-1.1	1,48,126	24.8	1,11,961	15.0
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	8,229	8,229	—	—	-979	-11.2	—	—	280	3.7	454	5.8
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयता	1,78,967	1,31,523	7,648	6.2	48,768	39.3	-47,444	-26.5	66,908	63.2	-41,243	-23.9

टिप्पणी : 31 मार्च 2007 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के पहले की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 जून 2007	1	—	—	—	—	—	39	48,810	39	1,997	6.00	-1,997	2,998
\$	1	—	—	—	—	—	33	38,605	33	1,001	6.00	-1,001	
5 जून 2007	1	—	—	—	—	—	41	56,745	41	1,998	6.00	-1,998	2,997
\$	1	—	—	—	—	—	40	46,100	40	999	6.00	-999	
6 जून 2007	1	—	—	—	—	—	41	67,785	41	2,000	6.00	-2,000	3,000
\$	1	—	—	—	—	—	37	41,740	37	1,000	6.00	-1,000	
7 जून 2007	1	—	—	—	—	—	45	64,980	45	1,999	6.00	-1,999	3,000
\$	1	—	—	—	—	—	37	45,010	37	1,001	6.00	-1,001	
8 जून 2007	3	—	—	—	—	—	41	59,415	41	1,994	6.00	-1,994	2,989
\$	3	—	—	—	—	—	35	42,655	35	995	6.00	-995	

@ : रातभर के रेपो को घटाकर।

\$: 28 नवम्बर 2005 से शुरू हुई दूसरी एलएएफ नीलामी।

* — : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

टिप्पणी : 5 मार्च 2007 से दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषण अधिकतम 3,000 करोड़ रुपये प्रतिदिन तक सीमित हैं जिसमें पहले एलएएफ के 2,000 करोड़ रुपये और दूसरे एलएएफ के 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियाँ			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारत औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)	
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य							
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
91-दिवसीय खजाना बिल														
2006-2007	4 अक्टू.	6 अक्टू.	2,000	44	2,886	2,100	26	2,000	2,100	—	4,100	98.39	6.6048	35,161
	3 जन.	5 जन.	2,000	52	2,972	—	36	2,000	—	—	2,000	98.27	7.1443	28,507
2007-2008	4 अप्रैल	7 अप्रैल	2,000	111	8,612	1,200	15	2,000	1,200	—	3,200	98.07	7.9353	46,429
	6 जून	8 जून	3,500	148	9,987	5,993	34	3,500	5,993	—	9,493	98.25	7.2274	50,928
182-दिवसीय खजाना बिल														
2006-2007	4 अक्टू.	6 अक्टू.	1,500	33	2,447	—	18	1,500	—	—	1,500	96.74	6.8011	20,707
	10 जन.	12 जन.	1,500	51	3,408	400	17	1,500	400	—	1,900	96.57	7.1447	21,053
2007-2008	4 अप्रैल	7 अप्रैल	1,500	88	7,005	—	5	1,500	—	—	1,500	96.18	7.9869	17,206
	30 मई	1 जून	1,500	67	4,295	236	44	1,500	236	—	1,736	96.39	7.6190	18,711
364-दिवसीय खजाना बिल														
2006-2007	11 अक्टू.	13 अक्टू.	2,000	58	4,680	17	24	2,000	17	—	2,017	93.56	6.9137	43,983
	3 जन.	5 जन.	2,000	78	4,225	5	27	2,000	5	—	2,005	93.33	7.1893	48,349
2007-2008	11 अप्रैल	13 अप्रैल	2,000	112	8,010	130	10	2,000	130	—	2,130	92.90	7.6985	54,943
	6 जून	8 जून	3,000	120	10,936	119	28	3,000	119	—	3,119	92.91	7.6869	55,744

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 91 दिवसीय खजाना बिलों के लिए अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत रु. 1,500 करोड़ की राशि शामिल है। 182 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 1,500 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है। 364 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है।

3. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों की अनुमति दी गई है।

4. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में कर दिया गया परिवर्तित है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25 मई 2007	12 मई	13 मई	14 मई	15 मई	16 मई	17 मई	18 मई	19 मई	20 मई	21 मई	22 मई	23 मई	24 मई	25 मई
	1,71,478	3,42,956	5,27,777	7,23,666	9,18,466	11,08,888	12,93,140	14,80,464	16,67,788	18,52,182	20,28,825	22,06,968	23,91,836	25,78,124
8 जून 2007	26 मई	27 मई	28 मई	29 मई	30 मई	31 मई	1 जून	2 जून	3 जून	4 जून	5 जून	6 जून	7 जून	8 जून
	1,86,010	3,72,020	5,62,229	7,58,315	9,67,965	11,88,160	13,99,832	16,16,398	18,31,345	20,48,634	22,67,229	24,80,871	26,86,683	28,83,332

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
14 अप्रैल 2006	38,568	2,005	6.00 — 8.90
7 जुलाई 2006	57,256	4,647	6.00 — 8.70
13 अक्टू. 2006	64,482	2,513	4.75 — 8.50
5 जन. 2007	68,928	2,449	8.26 — 9.25
13 अप्रैल 2007	93,807	2,539	9.50 — 11.50
27 अप्रैल 2007	95,980	3,817	9.40 — 11.50

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अप्रैल 2006	12,968	1,423	6.77 — 8.95
15 जुलाई 2006	21,652	3,389	6.25 — 8.30
15 अक्टू. 2006	23,521	1,733	7.20 — 8.65
15 जन. 2007	23,748	1,255	8.30 — 9.58
15 अप्रैल 2007	19,013	1,952	10.00 — 14.00
30 अप्रैल 2007	18,759	1,815	9.65 — 11.75

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास ।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2006	2007		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		27 मई	31 मार्च*	26 मई#	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	201.9	210.4	211.7	-0.1	0.4	0.6	4.9
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	203.0	215.9	220.5	-0.3	0.8	2.1	8.6
(i) फल और सब्जियां	2.92	223.7	221.6	244.9	-2.0	3.3	10.5	9.5
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	320.4	320.1	322.0	—	0.5	0.6	0.5
विनिर्मित उत्पाद	63.75	175.1	184.0	184.1	—	0.2	0.1	5.1
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	187.6	163.9	158.2	-0.1	-2.9	-3.5	-15.7
(ii) खाद्य तेल	2.76	146.4	163.5	165.7	-0.1	0.1	1.3	13.2
(iii) सीमेंट	1.73	193.5	210.4	212.4	0.2	0.4	1.0	9.8
(iv) लोह और इस्पात	3.64	243.6	262.9	268.6	0.9	2.2	2.2	10.3

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2006	2007				
	8 जून	4 जून	5 जून	6 जून	7 जून	8 जून
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	9295.81	14495.77	14535.01	14255.93	14186.18	14063.81
एसएंडपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	2724.35	4267.05	4284.65	4198.25	4179.50	4145.00

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	27 अप्रैल 2007	4 मई 2007	11 मई 2007	18 मई 2007	25 मई 2007	1 जून 2007	8 जून 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	11,869	11,141	9,332	10,141	8,904	6,858	4,814
ख) दिए गए ऋण	12,429	11,843	10,042	10,403	9,725	7,452	5,345
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	704	759	753	384	864	692	532
ख) दिए गए ऋण	144	56	43	121	43	97	1
3. कुल							
क) लिए गए उधार	12,573	11,900	10,084	10,525	9,767	7,550	5,346
ख) दिए गए ऋण	12,573	11,900	10,084	10,525	9,767	7,550	5,346

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)*

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	4 मई 2007	11 मई 2007	18 मई 2007	25 मई 2007	1 जून 2007	8 जून 2007
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	15,713	26,513	40,111	32,322	42,433	41,601
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	260	445	235	1,541	280	386
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	1,338	1,493	1,302	3,027	6,718	4,229
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	122	884	189	303	1,918	1,411
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	518	571	702	1,393	2,919	2,421
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	367	93	84	138	222	30

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
21 मई 2007	1,812	1,093	512	1,268	882	624	3,938	3,783	186	3,759	1,348	255
22 मई 2007	1,676	839	424	528	913	698	3,717	4,158	166	2,776	1,203	69
23 मई 2007	1,696	824	117	506	598	724	3,154	3,896	147	4,221	989	60
24 मई 2007	1,226	650	243	905	604	600	2,348	2,850	383	3,713	1,305	105
25 मई 2007	2,160	437	363	794	195	190	2,796	4,412	370	3,302	639	122
बिक्री												
21 मई 2007	1,759	964	290	1,122	864	767	4,207	3,914	157	3,651	1,536	236
22 मई 2007	1,649	567	373	581	739	853	4,233	3,942	162	2,760	1,146	48
23 मई 2007	1,441	455	201	384	739	557	3,189	3,960	262	4,324	1,037	49
24 मई 2007	1,114	295	511	707	533	670	2,408	2,872	437	3,634	1,198	136
25 मई 2007	1,626	546	314	768	188	198	3,130	4,208	474	3,294	712	149

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	4 मई 2007	11 मई 2007	18 मई 2007	25 मई 2007	1 जून 2007	8 जून 2007
1	2	3	4	5	6	7
राशि	89.90	334.27	26.29	235.46	74.65	267.60

टिप्पणी : 8 अक्टूबर 2005 से थोक ऋण बाजार घटक में प्रत्येक शनिवार को व्यापार बंद रहेगा ।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	8 जून 2007					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	15,178	12,858	34,853	62,888	870	10,766
राज्य सरकारें	42,289	25,396	2,111	5,112	74,908	-7,682	1,505
अन्य	469	10,355	3,742	15,779	30,345	1,668	71

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार

(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्मेंट)/ निजी जमा तथा खुला बाजार परिचालनों में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटायी गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2007-2008 (8 जून 2007 तक)	2006-2007 (9 जून 2006 तक)	2006-2007	2007-2008 (8 जून 2007 तक)	2006-2007 (9 जून 2006 तक)	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	43,000	43,000	1,46,000	16,800	20,452	1,06,921
1.1 भारिबैं पर भार / निजी जमा	—	—	—	—	—	—
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - बिक्री	1,256	2,070	5,845	—	—	—
खरीद	10	500	720	—	—	—

* : बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)[@]

(राशि करोड़ रुपए में)

यद	1 जून 2007 को समाप्त सप्ताह			8 जून 2007 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2007-08	20	7.7404	7.7404	—	—	—
2008-09	294	7.6726	8.3500	65	7.5564	8.2000
2009-10	2,605	7.7915	8.4100	2,361	7.7088	7.9601
2010-11	650	7.8216	8.0618	650	7.7715	7.8500
2011-12	250	7.9580	8.4400	475	7.8554	7.9615
2012-13	1	—	—	87	7.8966	7.9598
2013-16	5,081	8.0514	8.5574	2,381	8.0663	8.6054
2016-17	4,348	8.0299	8.2318	2,119	8.0686	8.1960
2017 से आगे	7,968	8.0606	8.7317	12,662	8.0839	8.7386
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	140	8.2505	8.3936	193	8.1027	8.3500
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	226	2.0000	6.9999	3	—	—
ख) 15 - 91 दिन	3,597	5.9997	7.6019	2,371	3.8996	7.4000
ग) 92 - 182 दिन	1,157	7.0001	7.6700	860	6.9498	7.4100
घ) 183 - 364 दिन	798	7.4700	8.0000	796	7.2824	7.7000
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	222			30		
: खरीद	—			—		
III. रेपो लेन देन £ (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	50,878	0.02 (1)	9.00 (90)	36,793	0.01 (1)	8.50 (15)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	391	0.25 (1)	6.10 (3)	209	0.10 (1)	9.00 (50)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	775	0.02 (1)	6.25 (3)	1,789	0.02 (1)	0.10 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	—	—	—	—	—	—
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,292	0.02 (1)	7.10 (3)	1,609	0.10 (1)	0.25 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो £^	—	—	—	—	—	—
: रिवर्स रेपो !	14,977	—	6.00	14,984	—	6.00

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेन देन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेन देन भी शामिल हैं।

£ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम संकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 450 रुपए और 1,250 रुपए तथा विदेश में क्रमशः 30 अमरीकी डॉलर और 80 अमरीकी डॉलर हैं।

श्री. ए. करुणागरन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा
ऑनलुकर प्रेस लि., 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फॅक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।